#### RateGain Travel Technologies Limited



**September 04, 2025** 

To,

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: RATEGAIN)

BSE Limited
(BSE: 543417)

Subject: Publication of information regarding 13th Annual General Meeting of the Company and e-voting

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published today, i.e., on September 04, 2025 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), regarding e-voting information for 13<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards of General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The dispatch of Notice of 13th Annual General Meeting of the Company, including e-voting information, alongwith the Annual Report for Financial Year 2024-25 through electronic mode was completed on September 03, 2025.

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at <a href="https://investors.rategain.com">https://investors.rategain.com</a>

Please take above information on record.

Yours faithfully,

For RateGain Travel Technologies Limited

Mukesh Kumar General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A17925

Encl.: As above

Corporate Office: Club 125, Plot No. A - 3,4,5, Tower A, 4th Floor,

Sector-125, Noida - 201301, UP, India | Tel: +91 120 5057000

Registered Office: M-140, Greater Kailash, Part-II, New Delhi - 110048

CIN No.: L72900DL2012PLC244966

Website: www.RateGain.com

E-Mail: help@rategain.com

## **FINANCIAL EXPRESS**

.....Continue From Previous Page

#### Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 10 Lakhs (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 123/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 6.61813times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,456,000 Equity Shares to 485 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of shares allocated/allotted
1	9000	1,002	96.81	90,18,000	93.59	3,000	91:194	14,10,000
2	10000	24	2.32	2,40,000	2.49	3,000	11:24	33,000
3	11000	1	0.10	11,000	0.11	3,000	0:1	0
4	12000	2	0.19	24,000	0.25	3,000	1:2	3,000
5	14000	2	0.19	28,000	0.29	3,000	1:2	3,000
6	27000	1	0.10	27,000	0.28	3,000	0:1	0
7	58000	1	0.10	58,000	0.60	3,000	0:1	0
8	100000	al <sup>y</sup>	0.10	1,00,000	1.04	3,000	0:1	0
9	130000	5 <b>1</b> 2	0.10	1,30,000	1.35	3,000	0:1	0
10	11000 & 27000 to 130000	*	0.00	15		3,000	2:5	6,000
11	9000 to 130000 (To 485 Allottees)	18	0.00	72	-	1,000	1:485	1,000
	TOTAL	1,035	100.00	96,36,000	100.00	110,000		14,56,000

Please Note: 1 additional lot of 1000 Share have been allocated to 485 Successful Applicants from all the categories in the ratio of 1:485

Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 123/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE Limited. This category has been subscribed to the extent of 2.02807 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 2.85.000 Equity Shares, which were allotted to 03 successful Applicants.

	Category	FII	Others	Total
	QIB	1,41,000	1,44,000	2,85,000
1	Allocation to Market Maker (After Re	lections & Withdrawal). The Basis of A	llotment to Market Maker who have h	old at Issue Price of □123/- ner Foult

Shares or above, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed 1.00000 times i.e. for 3.50,000 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 3,50,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	No of equity shares Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	3,50,000	1	100.00	3,50,000	100.00	3,50,000	1:1	3,50,000
	TOTAL	1	100.00	3,50,000	100.00			3,50,000

The Company in consultation with the BRLM has allocated 4,06,000 Equity Shares to 02 Anchor Investors at the Anchor Investor issue price of Rs. 123/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents 58.76% of the QIB Category.

Category	NBFC'S	FPI	Total
ALLOTMENT	1,62,000	2,44,000	4,06,000

Designated Stock Exchange, being BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before September 03 2025, and payment to non-Syndicate brokers have been issued on September 04, 2025. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before September 04, 2025, for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on September 05, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated September 03, 2025 ("Prospectus").

#### **INVESTORS, PLEASE NOTE**

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, KFIN TECHNOLOGIES LIMITED at www.kfintech.com All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

#### KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032, Telangana, India Contact Person: Mr. Murali Krishna, Tel: +91 40 6716 2222/18003094001

Email: sugs.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com

SEBI Registration No INR0000002210n behalf of Board of Directors

FOR, SUGS LLOYD LIMITED

Ms. Nimmy Singh Chauhan

Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi Date: September 03, 2025

Tender ref no: CC26DK008

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SUGS LLOYD LIMITED.

Disclaimer: Sugs Lloyd Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana, on September 03, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/PublicIssues/ and is available on the websites of the BRLM at www.3dcsl.com . Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors\* beginning on page 28 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States. and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

lame of Work

Estimated Value

eriod of Contract

ost of Document

arnest Money Deposit

ender Processing Fee

ate & Time of submission

Date & Time of opening oftender: 22.09.2025 at 15:30 Hrs.

late of Sale (Online).



#### BF UTILITIES LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036 CIN: L40108PN2000PLC015323 Website: www.bfutilities.com Tel.: +91 7/19004777 Email: Secretarial@bfutilities.com

#### Reminder Notice of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

With reference to our earlier newspaper advertisement published on

July 08, 2025, notice is hereby given to inform that in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, SEBI vide its circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 has opened a special window only for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum demat requests. The Company and the RTA have formed focused teams to attend such requests. You may contact RTA for attending these requests by sending

email at pune@in.mpms.mufg.com or Ms. Pragati S. Rai at Secretarial@bfutilities.com. The same will also be made available on the Company's website www.bfutilities.com. This is for your information. For BF Utilities Limited

> Pragati S. Rai Company Secretary,

Date: September 03, 2025

Place: Pune Membership No: A66887

DhanSafal

**DHANSAFAL FINSERVE LIMITED** 

(Formerly known as "Luharuka Media & Infra Limited").

CIN: L65100MH1981PLC044094

Registered Office: G-1402, Lotus Corporate Park, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra 400063;

Phone No.: 022-6894-8500/08/09, Fax: 022-2889-2527;

Email: info@dhansafal.com : Website: www.dhansafal.com

NOTICE OF 44\* ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION,

BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

in continuation of our newspaper notice published on Saturday, August 30, 2025, NOTICE is hereb

given that the 44th Annual General Meeting ('AGM' the Meeting') of the Members of DHANSAFA

FINSERVE LIMITED (the Company') will be held on Thursday, September 25, 2025 at 04:00 P.M.

(IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OVAM'), to transact the business

as stated in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 201

"the Act") read with relevant Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosur

Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with various circulars issued b

the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from time

The Annual Report of the Company including AGM Notice for the financial year 2024-2025 ("Annual

Report") were sent through electronic mode only to all those members whose email IDs are registere

with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or the Depositories, in accordance

with the MCA and the SEBI circulars and same has been completed on Wednesday, September 03

2025. Further, as per the SEBI Listing Regulations, the Company has sent a letter to those shareholder

whose email IDs are not registered with the Company or its RTA or the Depositories, providing the wet

Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The detailed instruction

for joining the AGM and the manner of casting vote through remote electronic voting (\*remot

e-voting") or the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Member

participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorur

under Section 103 of the Act. The Annual Report along with the Notice is available on the Company

website at www.dhansafal.com/annual-reports/ and on the website of the Stock Exchange when

shares of the Company are listed i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. Further, the Notice is als

available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

Members holding shares in physical mode and/ or who have not registered/updated their email ID

with the Company/ its RTA/ the Depositories and/ or who has acquired shares and become the members

of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date, i.e., Thursday

September 18, 2025 can obtain login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including

remote e-voting/e-voting by sending a request at evoting@rsdl.co.in and may also refer to the voting

instructions on the NSDL website. However, if a member is already registered with NSDL then they can

use their existing User ID and password for casting vote or following the procedure as mentioned in the

AGM Notice. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-of

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rul

20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 4

of SEBI Listing Regulations, the Company is providing a facility to the members to cast their votes

electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening the meeting. The Company ha

availed the services of NSDL to provide the facility of remote e-voting /e-voting during the AGM. Members

whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained

by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting a

well as e-voting during the meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their share

Commencement of remote e-voting From 9:00 A.M. IST on Monday, September 22, 2025

During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or i

dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting

module shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made

available during the AGM. Only those members attending the AGM through VC/DAVM, who have no

cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote

during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. Once the vote is cast by the

The Company has appointed, Mrs. Ramadevi Venigalla, Practicing Company Secretary (Membershi

No. FCS 7345 and CP No. 17889) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fail

Members, who need assistance and/or having any grievances before or during the AGM regarding

e-voting facility and/ or VC/ OAVM facility, may contact NSDL for technical assistance viz. Mr. Rahu

Rajbhar at evoting@nsdl.co.in/ Rahul.Rajbhar@nsdl.com or call on toll free no: 022 - 4886 7000

NOTICE is also hereby given that pursuant to section 91 of the Act read with Rules made thereunder

the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday

September 19, 2025 till Thursday, September 25, 2025 (both days inclusive) for the purpose of

022 - 2499 7000 and 022 - 2499 4200 or email at info@dhansafal.com or call at Tel. No

Upto 5:00 P.M. IST on Wednesday, September 24, 2025

in paid up equity capital of the Company as on the cut-off date.

Member, they shall not be allowed to change it subsequently.

End of remote e-voting

and transparent manner.

Date: September 04, 2025

AGM.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

link, including the exact path, to access the Annual Report on the Company's website.

to time, without the physical presence of the Members at the common venue



#### BF INVESTMENT LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036 CIN: L65993PN2009PLC134021 Website: www.btilpune.com

# Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

July 08, 2025, notice is hereby given to inform that in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, SEBI vide its circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 has opened a special window only for re-lodgement of transfer deeds. which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cumdemat requests. The Company and the RTA have formed focused

Place: Pune Date : September 03, 2025

#### Gayatri Pendse Karandikar Company Secretary

#### https://www.tatapower.com/tender for further details. Eligible Bidders willing to participate may submit their expression of interest latest by 17:00 Hrs. (IST) 9" September 2025. Future corrigendum's (if any), to

the above tenders will be published on Tender section on our

TATA

TATA POWER

(Corporate Contracts Department

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2" Floor, Sahar Receiving

Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400059, Maharashtra, India

(Board Line: 022-67173941)

Notice for Inviting bids

The Tata Power Company Limited, a company organized and existing

under the laws of India, whose registered office at Bombay House, 24, Homi

Mody Street, Mumbai 400001, India intents to source low calorific value

with low Sulphur and low ash Imported Thermal coal for its 750 MW coal

Bids are invited from reputed Coal suppliers for SERVICES FOR COAL

SAMPLING AND INDEPENDENT INSPECTION AGENCY FOR

COAL RECEIPT AT TROMBAY THERMAL POWER PLANT. The

interested bidders are requested to visit the website

based Thermal Power Plant at Trombay, Mumbai, Maharashtra.

website-https://www.tatapower.com/tenderonly.

**Quick Heal** 

Quick Heal Technologies Limited

CIN: L72200MH1995PLC091408 Registered Office: 7th Floor, Solitaire Business Hub Office No.7010 C & D. Viman

Nagar, Pune, Maharashtra 411014 Tel: +91 (20) 6681 3232; E-mail: cs@quickheal.co.in; Website: www.quickheal.co.in

#### NOTICE OF 30° ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Quick Heal Technologies Limited (the Company) will be held on Thursday, September 25, 2025, at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). In compliance with General Circular No.09/2024 dated September 19, 2024. issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 Issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and other applicable laws. Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

In Compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). These Documents can be downloaded from the Company's website www.quickheal.co.in under the "Investors" section, and also on the website of Stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of MUFG Intime India Private Limited at: https://instavote.linkintime.co.in

A letter providing the weblink for accessing the Annual Report for the Financial Year 2024-25 was dispatched to those shareholders who have not registered their email id's with the Company/DPs.

Members holding shares in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (i.e. September 19, 2025), may cast their votes electronically on the businesses set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of MUFG intime India Private Limited as mentioned above.

Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility at https://instameet.in.mpms.mufg.com and their attendance will be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Company Act (Act 2013). All Members are hereby informed that:

The businesses as set forth in the Notice of AGM will be transacted through remote evoting or e-voting system at the AGM;

- The remote e-voting shall commence on Monday, September 22, 2025 at 12:01 a.m.
- The remote e-voting shall end on Wednesday, September 24, 2025 at 05:00 p.m.

AGM will be September 19, 2025;

- The remote e-voting shall not be allowed beyond September 24, 2025, 05:00 p.m.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the
- The facility for voting through "electronic voting system" shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote

e-voting, shall also be eligible to exercise their right to cast their vote in the meeting;

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

provided in the notice of the AGM. The details will also be available on the website of

- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting an not
- beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 19, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through "electronic voting system" at the AGM. The manner of voting remotely for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is
- the company. Members are requested to visit www.quickheal.co.in to obtain such The Company has appointed Mr. Jayavant Bhave, Practising Company Secretary (Membership No. FCS: 4266; CP No: 3068), to act as the Scrutinizer for remote evoting as well as the e-voting on AGM, if any, to ensure e-voting process in a fair and
- . Members who have not registered their email address and/or any person, who acquires the shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holds shares as on cut-off date i.e. September 19,
- 2025 may obtain the Login ID and Password by sending a request to enotices@in.mpms.mufg.com For any gueries/grievances, in relations to remote e-voting, attending AGM, updating KYC

and Bank details Members may contact to the MUFG Intime India Private Limited at enotices@in.mpms.mufq.com The Members who require technical assistance to access and participate in the meeting

through VC may contact the helpline number; 020 26160084, 022 4918 6000 and 02249186175. For Quick Heal Technologies Limited

> Kailash Katkar (DIN: 00397191) Chairman & Managing Director

### RAVINDER HEIGHTS LIMITED CIN: L70109PB2019PLC049331 Regd. Office: SCO No. 71, First Floor, Royal Estate Complex,

Exemption for MSEs. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason

hereof. For complete details logon to www.tenderwizard.com/CCIL. Group General Manager/C&O/Area-1

ভান্স কুইন্থ বিশ্বন বিশিক্ত CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (গাংলা বাধ্যকার বলা ন্যাবলে অ্যানা) (ANavratna Undertaking of Govt, of India) NSIC Business Park, New MDBP Building, 2" Floor, Okhla Ind. Estate, New Delhi- 118020

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)

-Tender for Licensing out of space for ISO Container Repair facility for

Cluster-1: (ICD/Dhandarikalan, MMLP/Barhi), Cluster-2: (ICD/Kanakpura

CD/Kota, ICD/Bhagat Ki Kothi), Cluster-3: (ICD/Agra, ICD/Malanpur

ICD/Kanpur), Cluster-4; (ICD/Moradabad), Cluster-5; (MMLP/Khatuwas) of Area I.

RESERVE PRICE for 3 years: For Cluster 1 : Rs.6,74,717/- , For Cluster 2

Rs.7.38.472/-. For Cluster 3 : Rs.5.32.256/-. For Cluster 4 : Rs. 21.68.449/-.

For Cluster 5 : Rs.5,51,433/- TOTAL- Rs.46,65,327/- (ind GST) for 3 years

Rs.31,103/- (through e-payment only)
Rs.1000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment (Non-refundable

Rs.2,753/- (inclusive of GST) through e-payment (Non-refundable)

From 04.09.2025 at 15:30 Hrs. to 18:09.2025 up to 16:00 Hrs.

36 Months (3 years) plus four months obligatory period.

node. The bid document can only be downloaded from the website (www.tenderwizard.com/CCIL.

Zirakpur, Mohali, Punjab-140603 Corporate Office: 7th Floor, DCM Building, 16, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 Tel: +91 11 43639000 • Fax: +91 11 43639015 **E-mail:** info@ravinderheights.com • **Website:** www.ravinderheights.com

NOTICE OF THE 06<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,

#### REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the Sixth Annual General Meeting of the Members of Ravinder Heights Limited ("the Company") will be held on Saturday, September

27, 2025, at 11:30 A.M. at Best Western Maryland Hotel Zirakpur, Chandigarh-

140603 to transact the businesses as set out in Notice of AGM dated 07<sup>th</sup> August The Notice of 06th AGM along with proxy form, attendance Slip and Annual Report together with Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) for the year ended March 31, 2025, have been sent through electronic mode to those

Members whose names appeared in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on August 29, 2025 and whose email addresses are registered with the Company/Depositories & Share Transfer Agent/ Depository/ Depository Participant ("DPs") in compliance with The aforesaid documents are also available on the Company's website at

https://ravinderheights.com/rvhl/ websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. In terms of the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with rule

12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, 20th day of September, 2025 to Saturday, the 27th day of September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide evoting facility enabling them to cast their vote electronically on the resolutions as set out in the AGM Notice. The Company has availed the e-voting services as provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

#### The Members of the Company are further informed as follow: 1. The remote e-voting period will commence on Wednesday, September 24,

- 2025 (from 09:00 a.m. IST) and end on Friday, September 26, 2025 (up to **05:00 p.m. IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. 2. The voting rights of the members shall be in proportion to the paid-up value of
- their shares in the total paid-up share capital of the Company carrying voting rights, as on the cut-off date, being September 20, 2025. Shareholders are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository participant. 3. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of
- beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting through ballot paper. 4. A Member who has casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may
- also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the 5. The facility for voting through ballot papers shall also be made available at the
- AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. 6. Any person who has acquired shares and become member of the Company after
- dispatch of the Notice may obtain the login id and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and admin@skylinerta.com. The members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting printed in the AGM Notice carefully. 7. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for
- members and e-Voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 48867000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 or contact at telephone nos.:- +91 22 24994545 or contact Company's RTA viz. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at +91-11-40450193-97. and +91-11-26812682-83 or email at compliances@skylinerta.com or to the Company Secretary at secretarial@rayinderheights.com. By order of the Board of Directors

Date: September 03, 2025

Place: New Delhi

New Delhi

For Ravinder Heights Limited

Vertika **Company Secretary & Compliance Officer** Membership- A74813

Place: Noida Company Secretary & Compliance Office Place: Mumbai

Nishi M. Shat

Date: September 03, 2025

By Order of The Board of Directors o

**DhanSafal Finserve Limited** 



Tel: +91 7719005777 Email: Secretarial@bfilpune.com

Reminder Notice of Special Window for With reference to our earlier newspaper advertisement published on

teams to attend such requests

You may contact RTA for attending these requests by sending email at <u>pune@in.mpms.mufg.com</u> or Mrs. Gayatri Pendse Karandikar at Secretarial@bfilpune.com. The same will also be made available on the Company's website www.bfilpune.com. This is for your For BF Investment Limited

Membership No : A64136

## RateGain®

#### RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L72900DL2012PLC244966

Registered Office: M-140, Greater Kailash Part-II, New Delhi 110048 Corp. Office: Club 125, Plot No. 3,4,5, Tower A, 4th Floor, Sector-125, Noida- 201301, U.P. Telephone: +91 120 5057 000; E-mail: companysecretary@rategain.com; Website: www.rategain.com

NOTICE OF 13" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirteenth (13") Annual General Meeting ('AGM') of the Members of RateGain Travel Technologies Limited ("the Company") will be held on Monday, September 29, 2025, at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visua Means ('OAVM') facility in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act')

and Rules made thereunder, as amended from time to time, read with the General Circular No 4/2020 dated April 8, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, latest one being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs MCA') and the Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI'). (MCA Circular and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') to transact the business as set out in the Notice of AGM. n compliance with the above Circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report 2024-25 have been sent through electronic mode to those Members of the Company, whose email address are registered with the Company/Depository Participant (DP)/Registrar and Share Transfer Agent (RTA), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the Investors Section of the Company's website at www.rategain.com, Stock Exchange's website i.e. BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and

National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with the Secretarial Standard - 2 on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members of the Company are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system of NSDL. Members may cast their votes during the remote e-voting period from place other than the venue of the meeting (remate e-vating) or vate through e-vating system during the AGM (re-vating). The vating rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital

The details of remote e-voting/e-voting are as under:

of the Company as on Monday, September 22, 2025 ('cut-off date').

 The remote e-voting period commences on Thursday, September 25, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, September 28, 2025 at 5.00 p.m. (IST).

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Compa after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or einward.ris@kfintech.com or companysecretary@rategain.com. If a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote if you forgot your, password, you can reset your password by using 'Forgot User Details / Password' option available on www.evoting.nsdi.com. A member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is send through e-mail and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Issuer/RTA. However, a member already registered with NSDL for e-voting, can use existing user ID and password for casting the votes. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or 'Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com

In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM. The Members are also informed that: Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on September 28, 2025. The

remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once vote on a resolution is casted by a member, it cannot be changed, subsequently. The Members attending the AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the AGM through e-voting, c) Amember may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote

e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. d) Aperson, whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Monday, September 22, 2025, shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM. e) The procedure for remote e-voting/e-voting and attending the AGM through VC/OAVM is available in the Notice of AGM.

 The manner of registration of e-mail addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the Notice of AGM, The Board of Directors have appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Practicing Company Secretary (Membership No. F8488 & C.P. No. 13700) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting/e-voting process in a fair and transparent manner.

/C/OAVM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user-manual for nembers available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 -4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in. By the order of the Board of Directors For RateGain Travel Technologies Limited

a case of any queries, relating to remote e-voting/e-voting and joining the AGM through

Place: Pune General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer Dated: September 03, 2025

Mukesh Kumar

epaper.financialexpress.com

## ट्राइटन कॉर्प लिमिटेड

CIN: L55101DL1990PLC039989 **ईमेल:** cs@tritoncorp.in / फ़ोन: 011-49096562

पंजीकृत कार्यालय: आर-4, यूनिट 102, प्रथम तल, खिड़की एक्सटेंशन मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017 35<sup>व</sup> वार्षिक आम बैठक के संबंध में सदस्यों को सूचना

प्रिय सदस्यगण हम एतद्र द्वारा सूचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 29 सितंबर, 2023 के साथ पठित और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के परिपन्न संख्या परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांक जुलाई 11, 2023, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के साथ पठित के अनुपालन में टाइटन कॉर्प लिमिटेड ("कंपनी") की 35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" रविवार, 28 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे IST वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ('ओएवीएम')

के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का संचालन किया जा सके। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 35वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों के पंजीकृत ईमेल आईडी (कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत) पर भेजी जाएगी। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.tritoncorp.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। जिन सदस्यों ने अभी तक डिपॉजिटरी/कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट कर लें। हालांकि, सदस्य cs@tritoncorp.in पर नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता जैसे विवरण प्रदान करके अस्थायी रूप से कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 35वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड ('एनएसडीएल') के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 35वीं एजीएम में शामिल होने और 35वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके के निर्देश 35वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। 35वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.tritoncorp.in और बीएसईइंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम के लिए मतदान की पात्रता और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पात्र सदस्यों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि रविवार, 21 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्र/परिपत्री और सेबी परिपन्न के अनुपालन में है।

दिनांक: 03.09.2025 स्थान: नई दिल्ली

बोर्ड के आदेशानसार कते टाइटन कॉर्प लिमिटेड मीना रस्तोगी

# Dream**Folks**

रिज, कार्यालयः २६, डीडीए फ्लैटस, पंचशील पार्क, शिवालिक रोड, पंचशील एन्क्लेव, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली-110017, भारत, फोन: 0124-4037306, ई-मेल: compliance@dreamfolks.in, वेबसाइट: www.dreamfolks.com

## 17वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई—वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि 17वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचालन करने के लिए ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की एजीएम **सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को 11.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**'वीसी'**)/अन्य ऑडियो—वीडियो साधनों (**'ओएवीएम**") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") और उसके तहत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से **"एमसीए परिपञ्न"** के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (**'सेबी एलओडीआर विनियम'**) के लागू प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्न, नवीनतम परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (सामूहिक रूप से "सेबी परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम एक कॉमन स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी एलओडीआर विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट ("**वार्षिक रिपोर्ट**") के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जाएंगी, जिनकी ईमेल आईडी 29 अगस्त, 2025 तक कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (**'डीपी**') के साथ पंजीकृत हैं । कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को ऊपर संदर्भित एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, सेबी परिपन्नों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो compliance@dreamfolks.in पर हमें लिखकर इसके लिए अनुरोध करेंगे और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.dreamfolks.com और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी

इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, एक पत्र भी भेज रही है जिसमें कंपनी की वेबसाइट के सटीक पाथ सहित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए वेबलिक प्रदान किया गया है।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विस्तृत विधि एजीएम की सूचना में दी जा रही है । कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यावसायिक मदों पर लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा ("ई—वोटिंग") (सामुहिक रूप से "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग" के रूप में संदर्भित) प्रदान कर रही है। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि 26 सितंबर, 2025 को 09:00 बजे पूर्वा. (मा.मा.स.) से शुरू होकर 28 सितंबर, 2025 को 05:00 बजे अप. (मा.मा.स.) समाप्त होगी। कंपनी के सदस्य, जो कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2025 तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं. रिमोट ई–वोटिंग द्वारा या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, केंवल वे ही ई—वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट कर पाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण जैसे पैन, ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण आदि को अपडेट कर लें या यदि

भौतिक धारिता	कंपनी के आरटीए के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।
के मामले में	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूर्व की लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 फोन: 011-49411000 ई-मेल: delhi@in.mpms.mufg.com वेबसाइट: https://in.mpms.mufg.com/
	उक्त फॉर्म और अन्य प्रासंगिक फॉर्म सेबी द्वारा समय—समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार हैं, जिनका नवीनतम संस्करण सेबी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 7 मईं, 2024 है।
डीमैट धारिता	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में कंवाईसी

जिन सदस्यों के शेयर मौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और उनके ई-मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 और एजीएम सुचना सहित निवेशक संचार प्राप्त करने के लिए, ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करके, शीघ्र अति शीघ्र अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना (लॉगिन विवरण आदि सहित) प्राप्त करने के उद्देश्य से ई-मेल के अस्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य compliance@dreamfolks.in पर ई-मेल लिख सकते हैं।

के मामले में विवरण जैसे पैन, ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

यदि ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण सदस्य के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए उन्हें क्रेडेशियल्स का उपयोग किया जाना चाहिए। डिपॉजिटरीज जैसे एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर घारण करने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल की वेबसाइटों के माध्यम से लॉग इन करना चाहिए। पंजीकरण के बारे में अधिक जानकारी और विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना देखें । इसके अलावा, जिस तरीके से सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट किस प्रकार डाल सकते हैं, इसे एजीएम की सूचना में विस्तार से बताया गया है ।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और 22 सितंबर, 2025 की कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

शेयरधारक ध्यान दें कि 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक 100 दिवसीय अभियान — "**सक्षम निवेशक"** के अनुरूप, कंपनी के जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के पास अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश है या जिनके केवाईसी विवरण (जैसे, पैन, बँक खाता विवरण, संपर्क विवरण, नामांकन का विकल्प, नमूना हस्ताक्षर, ई-मेल, आदि) अपडेट नहीं किए गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को लिखें और आगे ई-मेल आईडी compliance@dreamfolks.in पर कंपनी को ई-मेल भेजें।

जिन सदस्यों ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश प्राप्त/दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित आरटीए से या कंपनी सचिव से compliance@dreamfolks.in पर

अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश को केवाईसी अपडेट होने के बाद ही शेयरधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

स्थानः गुरुग्राम

दिनांक: 3 सितंबर, 2025

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड हर्षित गुप्ता कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं: ए४११११ न्युक्लियस ऑफिस सॉल्युशन्स लिमिटेड

(पूर्व में न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

CIN: L70101DL2019PLC355618 पंजीकृत कार्यालय: ११०२, बराखंबा टॉवर, २२ बराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली – ११०००१

**फोन:** +91-9667049331 | **ई-मेल:** cs@nukleus.work | वेबसाइट: https://www.nukleus.work/

# 6वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन्स लिमिटेड ("कंपनी") की 6वीं वार्षिक आम बैठक ("AGM") गुरुवार, २५ सितम्बर, २०२५ को प्रातः ११:३० बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("OAVM") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, और भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("SEBI") द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है।

कंपनी ने MCA और SEBI परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 ("FY 24-25") की वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') AGM नोटिस के साथ, दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("DPs") के पास दर्ज हैं। जिन सदस्यों के ई-मेल पते दर्ज नहीं हैं, उन्हें उसी दिन एक पत्र भेजा गया है जिसमें वार्षिक रिपोर्ट तक पहँचने हेत् वेब लिंक और QR कोड दिया गया है।

कंपनी उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भी भेजेगी, जो विशेष रूप से इसे अन्रोध करते हैं, बशर्ते वे अपना फोलियो नंबर / DPID और क्लाइंट ID ई-मेल cs@nukleus.work पर भेजें। वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध रहेगी:

(a) कंपनी – https://www.nukleus.work/

(b) बीएसई लिमिटेड – www.bseindia.com

(c) बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. – https://www.bigshareonline.com/index.aspx

दूरस्थई-वोटिंग (Remote e-Voting):

कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जो अधिनियम की धारा 108, प्रबंधन एवं प्रशासन नियम, २०१४ के नियम २०, कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी गुप्तarial मानक (SS-2) तथा SEBI (LODR) विनियम, 2015 के अनुरूप है। इस हेतु कंपनी ने बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. को नियुक्त किया है। मुख्य विवरण:

a) दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 को शाम 5.00 बजे (IST) तक चलेगी। इसके बाद ई-वोटिंग बंद कर दी जाएगी।

**b)** केवल वही सदस्य जिनका नाम 18 सितम्बर, 2025 की कट-ऑफ तिथि को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स / डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में दर्ज है, वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग और AGM में ई-वोटिंग का लाभ उठा सकेंगे।

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक / भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक ivote@bigshgreonline.com पर ई-मेल भेजकर युज़र ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। d) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास NSDL/CDSL के माध्यम से डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, वे उन्हीं का उपयोग कर सकते हैं।

e) जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं हैं, उन्हें यह नोटिस केवल सूचना के उद्देश्य से दिया जा रहा है। स्क्रटनाइज़र:

सुश्री रुबिना वोहरा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (FCS नं. 9277, CP नं. 10930) को AGM और दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षण करने हेत् स्क्रूटनाइज़र नियुक्त किया गया है। दूरस्थ ई-वोटिंग और AGM में डाले गए मतों के परिणाम AGM की समाप्ति से अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, स्क्रूटनाइज़र की रिपोर्ट सहित, कंपनी की वेबसाइट https://www.nukleus.work/investor-relations/ तथा जिस स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं (अथित बीएसई) पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

## र्ड-वोटिंग संबंधी प्रश्न:

शेयरधारक https://ivote.bigshareonline.com पर उपलब्ध 'FAQs' और i-Vote ई-वोटिंग मॉड्यूल देख सकते हैं या ivote@bigshareonline.com पर ई-मेल कर सकते हैं / टोल-फ्री नंबर 1800 22 54 22 पर संपर्क कर सकते हैं।

#### डिपॉजिटरी हेल्पडेस्क:

• CDSL (डीमैट मोड): helpdesk.evoting@cdslindia.com | टोल फ्री नं.: 1800 22 55 33

**NSDL (डीमैट मोड):** evoting@nsdl.com | फोन: 022-48867000

## न्युक्लियस ऑफिस सॉल्युशन्स लिमिटेड

(पूर्व में न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन्स प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था)

Sd/-विनय राठौर,

स्थान: नर्ड दिल्ली **दिनांक:** 03.09.2025

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

# राठी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 24/1-ए, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड विहार, नई दिल्ली-110044, CIN - L27109DL1971PLC005905 वेबः www.rathisteelandpower.com,

ई–मेलः investors@rathisteelandpower.com दूरमाषः 011- 45058011 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ('ओएवीएम') और ई-वोटिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली 54वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

सदस्य कृपया ध्यान दें कि कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसे सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20ध्2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा, जिनमें सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, जो कि सेबी द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र है तथा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्र है, के अनुसार कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए भेजी जा रही वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित अनुसार कारोबार करने के लिए कहा गया है।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, 54वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के नोटिस और वित्तीय वर्ष ('वित्त वर्ष') 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनीध्इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी मैस सर्विसेज लिमिटेड ('आरटीए') / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होंगे:

कंपनी – www.rathisteelandpower.com, (बी) बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, (सी) आरटीए- www.masserv.com और (डी) एनएसडीएल www.evoting.nsdl.com. एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, एक वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिनके ई—मेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, ताकि वे वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंच सकें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 (जिसमें किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं जो समय–समय पर लागू हैं) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के साथ पढ़ा जाए, सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे।

## ईमेल पते पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीकाः

इलेक्ट्रॉनिक मोड में एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डीपी) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ और भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में आरटीए के पास, टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फंज - ।।, नई दिल्ली - 110020, पर फॉर्म ISR-1 जमा करके अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करें, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.rathisteelandpower.com. पर देखा जा सकता है।

ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका'

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम के नोटिस में निर्धारित और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले ही डाल दिया है. वे एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने/शामिल होने के हकदार हैं, लेकिन वे एजीएम में फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया के साथ-साथ वर्चुअल एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट कैसे डाल सकते हैं, इसका तरीका एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा।

कृते राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड

हस्ताक्षरकर्ता / -महेश पारीक प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00174146

CIN: U65999MH2019PLC323293 पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्पालय का पता: 7वीं मंजिल, ब्लॉक B2, फेज़-1, निरलॉन नॉलेज पार्क, पहाड़ी गाँव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, कामा औद्योगिक एस्टेट, गोरंगांव (पूर्व), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र।

(धारा 13(4) के तहत और प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि: अधोहस्ताक्षरी प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (तत्कालीन ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) ''इसके बाद 'प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 54, 2002) के अंतर्गत (सरफेसी अधिनियम) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के नियम 3 के साथ पठित के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में. 19 जन 2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें ऋण खाता संख्या GS083EEL2314924 के संबंध में उधारकर्ताओं वॉल नर्सिंग होम्यो वितनिक को इसके स्वामी मनमोहन सिंह पुत्र ओम प्रकाश पंवार एवं सह-उधारकर्ता; 1. मनमोहन सिंह पत्र ओम प्रकाश पंचार 2. सोनिया पुत्री हरजीत सिंह को आमंत्रित किया गया था और उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 21,93,134.52/- (रुपये इक्कीस लाख तिरानवे हजार एक सी चौतीस और **बावन पैसे मात्र) 19 जून 2025** तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर चुकाने का

ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, आज 1 सितंबर, 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर जुर्माना लगाया जाएगा। **प्रोटियम फाइनेंस** लिमिटेड को रुपये 21,93,134.52 (इक्कीस लाख तिरानवे हजार एक सौ चींतीस और बावन पैसे मात्र) 19 जून 2025 तक की राशि और उस पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क, व्यय के लिए

ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण:

खाता संख्या 902 (फसल वर्ष 1416 से 1421) से सम्बंधित संपत्ति का समस्त अंश एवं खंड. खसरा संख्या 5910 मौजा नवाबगढ़ परगना पछवादुन, विकासनगर देहरादुन सीमाएँ: - पूर्व: 15 फीट चौडा गलियारा, पार्श्व 26 फीट, पश्चिम: श्रीमती बबीता की भूमि, पार्श्व 26 फीट, उत्तर: श्री विक्टर की भूमि, पार्श्व 26 फीट, दक्षिण: श्रीमती बबीता की भूमि, क्षेत्र माप 26 फीट, साथ ही उससे संबंधित सभी अधिकार, भवन, सुधार और सुविधाएं। दिनांक: 01-09-2025

स्थान: विकास नगर, देहरादुन

हस्ता/-, कृते प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

रियल एस्टेट क्षेत्र ।, कस्तूरबा गाँधी मार्ज, उत्तरी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, ।।०००। में कार्यरत, (दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण पैन / सी आईएन / एलएलपी संख्या साथ गुरित प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड CIN: U452010L2004PTC130198 PAN: AABCE4526H क्रॉपॉरेट देनदार का नाम करत्रबा गांधी मार्ग, उत्तरी दिल्ली, नई दिल्ली, पंजीकृत कार्यालय का पता दिल्ली, भारत, 110001 उस स्थान का विवरण जहां अवल संपत्तियों का 1, करतुरवा गांधी मार्ग, उत्तरी दिल्ली, नई दिल्ली, बहमत स्थित है दिल्ली, भारत, 110001 कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादों /सेवाओं की उपलब्ध नहीं पेछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उपलब्ध नहीं उत्पादों ⁄सेवाओं की मात्रा और मल्य उपलब्ध नही दो वर्षों के अतिम उपलब्ध विनीय विवरणों https://drive.google.com/drive/folders/ 1NVyNgBigWy\_wr6Bg82FY0W0Ni1UV बद की पटनाओं हेत् प्रासंगिक तिथियाँ सहित अधिक J-a?usp=sharing वेवरण निम्नलिखित युआरएल पर उपलब्ध है। संहिता की घारा 25(2)(एच) के तहत समाधान https://drive.google.com/drive/folders/ आवेदकों के लिए पाल्ला यहां युआरएल पर 1NvyNgBigWy wr6Bg8zFYoWONi1UVC रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 19.09.2025 (04.09.2025 से 15 दिन) संगावित संकल्प आवेदकों की अतिम सुची जारी 21.09.2025 (19.09.2025 से 5 दिन) अंतिम सुधी पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की 26.09.2025 (21.09.2025 से 1 दिन) संभावित समाधान आवेवको की अंतिम सुवी 27.09.2025 (26.09.2025 से 1 दिन) संभावित समाधान आवेदको को सूचना ज्ञापन, 28.09.2025 (27.09.2025 से 1 दिन) क्षांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं ये लए अनुरोध जारी करने की तारीख समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 10 2025 (28 09 2025 से 30 दिन) रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल cirp.nurit@resurgentrpl.com

सुधीर चांदी अधिकृत इस्तासरकत रिसर्जेट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी मेसर्स नृरित प्रॉपर्टीन प्राइवेट लिमिटेड के सीआईआरपी में रेजोल्पूशन प्रोफेशनल आईबीबीआई पंजीकरण: IBBI/IPE-0084/1PA-3/2022-23/50018 एएफए 31 दिसंबर 2025 तक मान्य

पताः 905, 9वीं मंजिल, टॉवर-सी, यूनिटेक बिजनेस जोन, सेक्टर 50, गुरुग्राम, हरियाणा 122018 ईमेलः cirp.nurit@resurgentrpl.com विनांक: 04.09.2025

## RateGain® रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एम-140, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, गई दिल्ली 110048 कार्पोरेट कार्यालयः क्लब 125, प्लॉट संख्या 3,4,5, टावर ए, चौथी मंजिल, सैक्टर-125, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

फोनः+91 120 5057 000; ईमेलः companysecretary@rategain.com; वेबसाइटः www.rategain.com 13वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

मुचित किया जाता है कि रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिगिटेंड ('कंपनी') के सदस्यों की तेरहवीं (13वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय **समयानुसार)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुञल साधनो ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम सं विनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय र संशोधित किए अनुसार, उसके सहपठित 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020 और इस संबंध ो जारी किए गए बाद के परिपत्रों के सहपठित. जिनमें से नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2024 दिनांक 19 सेतंबर, 2024 है जो कोंपोरेट मामलों के मंजालय ('एमसीए') द्वारा जारी किये गये हैं और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी 03 अक्टूबर, 2024 के परिपन्न संख्या तेवीं / एचओ / सीएफडी / सीएफडी -पीओडी -2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 (एमसीए परिपन्न और सेवी परिपन्न को सामृहिक रूप से 'परिपन्न' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट

यवसाय संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है. जिनके ईमेल पते कंपनी / ढिमॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ढीपी) / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं, जैसा भी मामला हो। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की देवसाइट www.rategain.com के निवेशक अनुमान, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) <u>www.bseindia.com</u>. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज विपॉजिटरी लिमिटेव ('एनएसबीएल'

हंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के नुसार. लेबी (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, समय–समय संशोधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक-2 कं कंपनी के सदस्यों को एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की चना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर अपना वोट जालने की सकिया प्रदान की जाती है। सदस्य बैठक के स्थल के तिरिक्त किसी अन्य स्थान से रिमोट ई—वोटिंग ('रिमोट ई—वोटिंग') अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। सदस्यों के वोटिंग के धिकार सोमवार, 22 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी की चकता इविवटी शेवर पूंजी में उनके द्वारा

प्रारित इविवटी शेयरों के अनुपात में डोंने । मोट ई-बोटिंग / ई-वोटिंग के विवरण निम्नानुसार है: रिमोट ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को प्रात: 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2025 को साथ 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस नेजने के बाद कंपनी वो शेवर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है

और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 22 सितंबर, 2025 तक शैयरवारक बनता है. evoting@nsdl.co.in या einward.ris@kfintech.com या companysecretary@rategain.com पर अनुरोध

भजकर लोगिन आईडी और पासवंड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति रिमोट इ-वाटिंग के लि एनएसडीएल के साथ पड़ले से मंजीकृत है, तो वोट ढालने के लिए मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप अपना पासवर्ड मूल गए है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए हैं' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकता है। भौतिक रूप में शेयरधारक कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है

और ई-मेल के माध्यम से गोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख तक शेयरवारक है, वह evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल या जारीकर्ता / आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, ई-बोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य, वोट ढालने के लिए मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड मूल गए हैं. तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए हैं" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

डीमैट मोड में प्रतिभृतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि तक शेयरधारक बन गए हैं, वे एजीएम की सचना में चिल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि क) 28 सितंबर, 2025 को सांचः 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडधूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक

बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट ठालने के बाद; इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। वीसी / ओएवीएम सुविधा के मध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना थोट नहीं डाला है, ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

कोई भी सदस्य रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी सोमवार, 22 सितंबर, 2028 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में माग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पतों के

पंजीकरण का तरीका एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जीच करने के लिए श्री देवेश कमार वशिष्ठ, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफ8488 और सी.पी. संख्या 13700) को

रेमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के ढाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल-फी नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या <u>evoting@nsdi.co.in</u> पर सुश्री पल्लवी म्हान्ने को अनुरोध भेज सकते हैं।

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड निदेशक मंडल के आदेशानुसार

मुकेश कुमार,

दिनांकः 3 सितंबर, 2025 स्थानः नोएडा

महाधिवका. कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

epaper.jansatta.com

स्थान : दिल्ली

दिनांकः 03.09.2025